

प्रेस नोट थाना खोराबार दिनांक 29-05-2021

पुलिस मुठभेड़ में 03 नफर शातिर अपराधी अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में जनपद में घटित लूट, चोरी व इनामियाँ अपराधी की गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक अपराध के मार्ग दर्शन में व क्षेत्राधिकारी कैण्ट के नेतृत्व में खोराबार पुलिस टीम को लगाया गया था। आज दिनांक 29.5.2021 को प्रभारी निरीक्षक राहुल सिंह मय हमराही कर्मचारीगण के रामनगर कड़जहाँ मोड़ पर सदिग्ध वाहन व सदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे कि SI चंदन सिंह चौकी इंचार्ज करजहाँ मय हमराह मुकेश कुमार आये। आपस में हम लोग फरार अपराधी व एच.एस के सम्बन्ध में वार्ता कर रहे थे कि इतने में मुखबीर खास आकर बताया कि जंगल रामलखना में दुर्गा मंदिर उर्फ बनसप्ति निकट सैनपुर में तीन अपराधी बैठे हैं किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते हैं। इस सूचना पर विश्वास करके बउमिद गिरफ्तारी व बरामदगी हम पुलिस वाले जंगल रामलखना दुर्गा मन्दिर उर्फ बनसप्ति निकट सैनपुर के पास पहुंचे कि हम पुलिस वाले को अपने तरफ आते देखकर तीनों एक राय होकर दुर्गा मन्दिर के पीछे जंगल में भागे चिल्लाये कि मारो साले पुलिस वाले हैं जिन्दा न बचने पाये। हम पुलिस वालो को जान से मारने की नियत फायर किये कि हम पुलिस वाले हिकमत अमली व सीखे हुये तरिके से बचते बचाते घेर घार कर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए समय 9.30 बजे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े हुए पहले व्यक्ति ने अपना नाम विजय राजभर S/O चन्द्रभान राजभर R/O जंगल रामलखना लोहरान टोला PS खोराबार जनपद गोरखपुर बताया एक अदद अवैध तमन्चा .315 बोर, चेम्बर के अन्दर एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर मिला। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम धर्मेन्द्र निषाद पुत्र श्री रामनिषाद निवासी जंगल रामलखना (बरई टोला) थाना खोराबार जनपद गोरखपुर बताया जामा तलाशी से पहने हुए पैंट के दाहिने तरफ कमर में खोसा हुआ एक अदद अवैध तमन्चा .315 बोर तथा दाहिने पैंट की जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर मिला। तथा तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम शिवशरन पुत्र छेदी R/O जंगल रामलखना (मल्लाह टोला) थाना खोराबार जनपद गोरखपुर बताया जामा तलाशी से दाहिने हाथ में पकड़ हुआ एक अदद अवैध तमन्चा .315 बोर व चेम्बर में एक अदद फायरशुदा खोखा कारतूस .315 बोर मिला। तथा पैंट पहने हुए की गयी जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर का मिला अभियुक्तगण विजय निषाद व धर्मेन्द्र उपरोक्त ने बताया कि हम लोग वर्चस्व कायम करने के लिए अवैध तमन्चे के साथ फोटो खिचाकर व विडियो बना कर वायरल किये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम पता-

1. विजय राजभर S/O चन्द्रभान राजभर R/O जंगल रामलखना लोहरानटोला PS खोराबार जनपद गोरखपुर।
2. धर्मेन्द्र निषाद पुत्र श्रीराम निषाद निवासी जंगल रामलखना (बरई टोला) थाना खोराबार जनपद गोरखपुर।
3. शिवशरन पुत्र छेदी R/O जंगल रामलखना (मल्लाह टोला) थाना खोराबार जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान-

29-05-2021 समय 09.30, जंगल रामलखना वनसप्ति दुर्गा मंदिर टोला सैनपुर थाना क्षेत्र खोराबार।

बरामदगी-

03 अदद तमन्चा .315 बोर, 03 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस

अपराधिक इतिहास-

- 1- विजय राजभर पुत्र चन्द्रभान राजभर निवासी जंगल रामलखना लोहरानटोला थाना खोराबार जनपद गोरखपुर ।
मु0अ0सं0 285/21 धारा 307 भादवि थाना खोराबार
मु0अ0सं0 286/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खोराबार
- 2- धर्मेन्द्र निषाद पुत्र श्रीरामनिषाद निवासी जंगल रामलखना (बरई टोला) थाना खोराबार जनपद गोरखपुर।
मु0अ0सं0 285/21 धारा 307 भादवि थाना खोराबार
मु0अ0सं0 287/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खोराबार
- 3- शिवशरन पुत्र छेदी निवासी जंगल रामलखना (मल्लाह टोला) थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
मु0अ0सं0 285/21 धारा 307 भादवि थाना खोराबार
मु0अ0सं0 288/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खोराबार
मु0अ0सं0 1093/09 धारा 379.411 भादवि 26वन अधि0 थाना खोराबार
मु0अ0सं0 1734/09 धारा 379.411 भादवि 26वन अधि0 थाना खोराबार
मु0अ0सं0 1720/10 धारा 307 भादवि 26 वन अधि0 थाना खोराबार
मु0अ0सं0 1011/16 धारा 379.411 भाद वि 26वन अधि0 थाना खोराबार
मु0अ0सं0 681/17 धारा 302 भादवि थाना खोराबार
मु0अ0सं0 647/17 धारा 147.452.323 भादवि थाना खोराबार
मु0अ0सं0 593/18 धारा 307.379.411.332 थाना खोराबार
मु0अ0सं0 333.353 धारा 26.52डी वन अधि0 थाना खोराबार
मु0अ0सं0 639/18 धारा 307 भादवि थाना खोराबार
मु0अ0सं0 640/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खोराबार
04.08.18 गुण्डा एक्ट थाना खोराबार
मु0अ0सं0 843/18 धारा 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना खोराबार
2018 एन0एस0ए0 थाना खोराबार

गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी / कर्म0 का नाम व नियुक्ती स्थान-

- 1- श्री राहुल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक खोराबार गोरखपुर ।
- 2- श्री संजय कुमार सिंह वरिष्ठ उपनि0 थाना खोराबार गोरखपुर ।
- 3- श्री चन्दन तुमार सिंह चौकी प्रभारी रामनगर कड़जहा थाना खोराबार गो0।
- 4- का0 मुकेश कुमार चौकी रामनगर कड़जहा थाना खोराबार गोरखपुर ।
- 5- हे0का0 संजय कुमार सिंह थाना खोराबार गोरखपुर
- 6- का0नन्दन शर्मा थाना खोराबार गोरखपुर ।
- 7- का0 सत्येन्द्र कुमार थाना खोराबार गोरखपुर ।
- 8- का0 प्रियेश कुमार थाना खोराबार गोरखपुर ।